



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4000]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940

No. 4000]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5185(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के साथ परामर्श करके, कोलकाता पत्तन न्यास को स्लीपर कार्य, रेल पटरियों के नवीकरण, मरम्मत, प्रत्यार्वतन और पटरियों के बिछाने या जोड़ने के कार्य में ठेका श्रमिक के नियोजन की बाबत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7 जुलाई, 2005 में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 959(अ), तारीख 7 जुलाई, 2005 की प्रयोज्यता से ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 25 के उप-नियम (2) के खंड (v) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययधीन रहते हुए 30 मई, 2018 से प्रभावी दो वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. एस-16012/03/2015-एल.डब्ल्यू]

मनीष कुमार गुप्ता संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2018

**S.O. 5185(E).**—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts Kolkata Port Trust from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 959(E), dated the 7<sup>th</sup> July, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), dated the 7<sup>th</sup> July, 2005, in respect of employment of contract labour in the works of sleeper, renewal of railway tracks, repairing, restoration and laying and linking of tracks for a further period of two years with effect from the 30<sup>th</sup> May, 2018 subject to the compliance of the conditions specified under sub-clause (a) of clause (v) of sub-rule (2) of rule 25 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971.

[F. No. S-16012/03/2015-L.W]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

5917 GI/2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.